#### Registered & Corporate Office:

S.C.O. 18-19, Sector 28-C, Chandigarh 160002, India CIN: L27106CH1991PLC011536 T +91 172 4668 000 E contact@jtl.one W www.jtl.one

#### **September 01, 2025**

The Manager, Corporate Relationship Department,

**BSE Limited.** 

25<sup>th</sup> Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001 National Stock Exchange of India Ltd. 'Exchange Plaza', C- 1 Block G, Bandra Kurla

Listing Department,

The Manager,

Complex, Bandra (East) Mumbai – 400051

**NSE Symbol: JTLIND** 

Scrip Code: 534600

## <u>Sub: Copies of Newspaper Publication of Notice of 34<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) and E-voting information</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper clippings regarding Notice of the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company, to be held on Tuesday, September 23, 2025 at 11:30 A.M. through Video Conferencing/Other Audio Visual means along with e-voting information as published in the Chandigarh editions of following newspapers:

- 1. Financial Express (English) on August 31, 2025
- 2. Jansatta (Hindi) on August 31, 2025

Kindly take the above information on your record.

Thanking you,

Yours Sincerely,

**For JTL Industries Limited** 

Amrender Kumar Yadav Company Secretary and Compliance Officer (M. No. A41946) **FE SUNDAY** 

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

#### **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT-3) GROUND FLOOR, S.C.O. 33-34-35, SECTOR 17-A, CHANDIGARH-160017**

Case No.: OA/1725/2022 Summons under Sub-Section (4) of section 19 of the Act, read with Sub-rule (2A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No. 25523

STATE BANK OF INDIA

**GURDEEP SINGH AND OTHERS** 

(1) Sh. Gurdeep Singh S/o Sh. Jit Singh, R/o H.No. 205, Nai Basti, Near Cinema Road, Nabha, District Patiala, Punjab.

(2) Sh. Jit Singh S/o Sh. Mewa Singh, R/o H.No. 205, Nai Basti, Near Cinema Road, Nabha, District Patiala, Punjab. (3) Smt. Baljinder Kaur W/o Sh. Jit Singh, R/o H.No. 205, Nai Basti,

Near Cinema Road, Nabha, District Patiala, Punjab. SUMMONS

WHEREAS, OA/1725/2022 was listed before Hon'ble Presiding officer/Registrar on 19.05.2025.

with copies of documents etc. annexed).

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 20,19,436 (application along

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :-

(i) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted:

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application:

(iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv)You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 10.10.2025 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this tribunal on this date: 20.05.2025.

### **Parle Industries Limited** CIN: L21000MH1983PLC209128

Regd. Office: 310-311, The Avenue, Marol, Andheri East, Mumbai - 400059. Tel.: 022 40132875 Website: www.parleindustries.com **Email:** info@parleindustries.com

### INTIMATION REGARDING 42nd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO -VISUAL MEANS

The notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of Parle Industries Limited (The Company) will be held on Friday, 26th September, 2025 at 12.30 P.M through Video Conferencing ("VC"), / Other Audio Visual Means ('OAVM") in compliance with the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India and all other applicable laws, to transact the Businesses, as set out in the Notice of AGM. The Electronic copies of the Notice of AGM will be sent on or before 4th September, 2025 to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depositories. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of AGM.

In compliance of the various circulars, the Company shall send electronic copies of Annual Report along with the Notice of AGM to those shareholders whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant. The Notice of AGM along with Annual Report for the financial year 2024-25, will be available on the website of the Company at https://www.parleindustries.com, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com.

Manner of registering and updating email addresses: The Members who have not yet registered their e-mail address can register the same with the Depositories through their respective Depository Participants, in case the shares are held in Demat Mode and with Company's Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited, by submitting Form ISR - 1 in case the shares are held

Manner of casting vote through remote e-voting and e-voting during AGM: The Company will be providing remote e-voting facility to its members to cast their votes, during the remote e-voting period, on businesses as set forth in the Notice of AGM through the platform provided by National Securities Depositories Limited ("NSDL"). The remote e-voting as well as e-voting in the AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on the e-voting system to be provided by the company. The details of the e-voting will be specified in the Notice of AGM. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email ID can access the e-voting system and vote on the e-voting system as per the procedure which will be mentioned in the AGM Notice.

Notice is also hereby given that pursuant to the Section 108 of the Companies Act 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules 2014 the Company has fixed Cut-off date as Friday, 19th September, 2025.

**FOR PARLE INDUSTRIES LIMITED** 

**Anand Suresh Jain** Date: 31.08.2025 **Whole-Time Director** Place: Mumbai DIN: 07730608

CRIENTAL UNITED

Name of the Branch,

Name of the Account,

Name & addresses

of the Borrower/

**Guarantors Account** Branch Office:

Uchana (Jind)



UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD
Registered office at: Unit 2009-14, 20th Floor, Tower – 2, Magnum
Global Park Golf Course Extension Road, Sect-58, Gurugram
(Haryana)-122002
CIN: U64990HR2016PTC057984

**APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE** 

Whereas, The undersigned being the authorized officer of the UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest (Act, 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with [rule 3] of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices to the Borrower/s as details herein under, calling upon the respective Borrowers to repay the amount mentioned in the notice with all costs, charges and expenses till actual date of payment within 60 days from the date of the receipt of the said notice. The said Borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagor having failed to repay the amount

notice is hereby given to the borrower//Co-borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise the powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said act read with rule 8 of the security interest Enforcement Rules, 2002 on this date. The Borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and dealings with the property will be subject to the charge of the UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD. For the amount specified therein with further interest, costs and Chagares from respective dates thereon until full payment. The Borrower's attention is invited to provision of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Details of the Borrowers, Co-borrowers and Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed thereunder and Date of Possession is given as under:

	Guarantor Loan Account No. And Loan Amount				
1. Rakesh Kumar S/o Amrik Singh (Borrower)					
	2. Ravinder Kaur W/o Rakesh Kumar (Co-Borrower)	Γ			
	Both Above Residing At-Bhatt Majara Saraswati Khera	Г			
	(34), Urnai, Kurukshetra Haryana-136128				
	3. Nathu Ram S/o Telu Ram (Guarantor) Residing At-				
	Chanalheri (305) Kurukshetra Haryana 136128				
	Loan No. LXKUR03623-240027887				
	Loan Agreement Date- 26-Aug-23				

Rs. 4,42,975/- (Rupees Four Lacs Forty-Two Thousand Nine **Hundred Seventy Five Only)** As On 10-Jun-2025 + Further **Interest And Other Charges** From 11-Jun-2025 DETAILS OF THE SECURED ASSET: All That Part And Parcel Of Property Bearing Unique Io

10-Jun-2025 | 26-Aug-2025

**Amount Due In Rs.** 

Notice Date

Symbolic

**Possession Date** 

No.584240E0000020RR072A, Area Measuring 93.303 Sq. Mtrs. Situated At- Village Saraswati No.584240E0000020RR072A Khera Tehsil- Pehwa District Kurukshetra Haryana. Bounded As- East-House Of Kulwant, West-Gal 11' Ft. Wide, North- House Of Jagbir Singh, South- House Of Gurmez Singh Authorized Officer, Mr. Gaurav Tripathi Mobile- 9650055701

Date: 31.08.2025 **Ummeed Housing Finance Pvt. Ltd** Place: Gurugram, Haryana



Loan Amt. Rs. 4,75,000/-

TL INDUSTRIES LIMITED CIN NO: L27106CH1991PLC011536

Regd. & Corp. Off.: S.C.O.18-19, Sector 28-C, Chandigarh-160 002 INDIA Phone: +91 172 4668000, Email: secretarial@jtl.one, Website: www.jtl.one

#### NOTICE

Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 23rd day of September, 2025 at 11.30 a.m. through Video-Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical presence of the members at a common venue, to transact the business specified in the Notice convening the said AGM, in view of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 "Act"), Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as MCA Circulars) and the Securities and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 (collectively referred to as SEBI Circulars). The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are mentioned in the Notice dated 27<sup>th</sup> August, 2025, convening the 34<sup>th</sup> AGM.

In compliance with the relevant MCA and SEBI Circulars, copies of the Notice of 34th AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 are being sent to all to the members whose email IDs are registered with the Depositories/RTA of the Company. In line with the MCA Circulars, physical copies of the AGM Notice are not being dispatched and the AGM Notice alongwith the Annual Report shall be sent through email to the shareholders whose e-mail IDs are registered with Company/RTA/Depositories. Further, a letter providing a weblink for accessing the AGM Notice and Annual Report 2024-25 will be sent to those Members who have not so registered their e-mail address

Members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses and mobile numbers are requested to register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) viz. M/S Beetal Financial & Computer Services (P) Limited. In the case of Shares held in Demat mode, the shareholders may please contact the Depository Participant ("DP") and register their email addresses and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

The Notice of 34th AGM and Annual Report for F.Y. ended 31st March, 2025 is also being made available on Company's Website i.e. www.jtl.one, website of Stock Exchanges i.e. BSE a www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com.

The Company is providing facility of remote e-voting through CDSL to its Members in respec of the business to be transacted at the AGM. The remote e-Voting period commences or Saturday, the 20th day of September, 2025 (9.00 a.m. IST) and ends on Monday, the 22dd day of September, 2025 (5.00 p.m. IST). During this period, Members of the Company, holding shares both in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) i.e Tuesday, the 16<sup>th</sup> day of September, 2025 may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to

change it subsequently. Further, the facility of e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have already cast their votes through remote e-voting will be entitled to attend the AGM but shall not be entitled to vote again. The voting rights of the Members (for voting through remote e-Voting before/ during the AGM) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company.

The instruction for attending the meeting through VC/OAVM and the manner of participation i the remote e-voting or casting vote at the AGM through e-voting is provided in the Notice convening the AGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

In case Members have any questions or queries regrading remote e-voting from the CDSL of Voting System, they can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mi Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25 Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East) Mumbai - 400013 or call on toll free no. 1800 21 09911

Further, Members may also approach to Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/S Beetal Financial & Computer Services (P) Limited. Address: Beetal House, 99, Madangir Behind Local Shopping Centre, New Delhi, Tel: (91) -11-29961281-83, Fax: (91) -11 29961284, Email: beetal@beetalfinancial.com or email to Company at secretarial@jtl.one o contact at 0172-4668000.

The Board of Directors at their Meeting held on 27th May, 2025, had recommended a final dividend of Re. 0.125/- (i.e. 12.5%) per share. The record date as already informed, for the purpose of final dividend is 12<sup>th</sup> September, 2025. The final dividend, if approved by the Members at the ensuring AGM, will be paid within 30 days of the declaration of the same a ensuing AGM. Members are requested to update their KYC with depositories (where share are held in dematerialised mode) and with the RTA (where shares are held in physical mode

to receive dividend directly into their bank account on the payout date Members may note that pursuant to the provisions of Finance Act, 2020, dividend income taxable in the hands of the shareholders w.e.f. April 01, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates.

Necessary information with respect to the tax deductible on dividend declared is stated in the Notice for reference of the Members. By the Order of Board of Directors

For JTL Industries Limited

E-AUCTION

NOTICE

Amrender Kumar Yadav

**Company Secretary** 

Details of the encumb

rances known to

NOT

KNOWN

TO BANK

Date/

Time of

16.09.2025

From

11.00 Am

To 4.00 Pm

E- Auction the secured creditors

M. No.: A41946

Place: Chandigarh Date: 30.08.2025

... the name you can BANK upon!

CIRCLE OFFICE, IIND-126102, Email:cojindrecovery@pnb.co.in, Mob: 82880-13987

Appendix - IV-A [See Proviso to rule 8 (6)]

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable

property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as

mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

B) Outstanding Amount as on

measuring 224 sq. yards RSD B) Rs. 6,27,233 (Six Lakh Twenty-Seven B) Rs. 2,13,300/

A) Dt. of Demand Notice u/s 13(2) of SARFESI ACT 2002

C) Possession Date u/s 13(4) of SARFESI ACT 2002

D) Nature of Possession Symbolic/Physical/Constructive

Chatter Singh. Boundaries of the property: - North - Property of Mrs. lakhmi (36"), South - Gali (36"), East-Gali (56")

punjab national bank (

NOTICE OF INVITATION OF DESIGN COMPETITION PROPOSALS FOR ENGAGING PRINCIPAL PROJECT ARCHITECT CUM PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT State Bank of India (SBI) invites Expression of Interest (EOI) from reputed and

SBI 3rd Floor,LHO, Hoshangabad Road, Bhopal-462011

TENDER ID: LHO/BHO/P&E/2025-26/74

**PARTICULARS** 

STATE BANK OF INDIA, Premises & Estate Department,

Ph. No. 0755-2575812, e-mail: agmprem.lhobho@sbi.co.in

experienced Architectural Firms/Individual for participating in the Design Competition for selection and engagement of Principal Project Architect cum Project Management Consultant to render Architectural Consultancy Services for the Proposed construction of residential flats/ quarters at Chetana, Scheme No.78, The prequalification/eligibility criteria, scope of the services to be rendered, terms

and conditions of appointment and prescribed formats for submission of application can be downloaded from Bank's website www.sbi.co.in under "Procurement News" (https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/procurement-news) from 31.08.2025 to 27.09.2025 up to 3.00 PM

Interested Architectural Firms complying prescribed eligibility criteria should ensure submission of their applications in the prescribed format with supporting documents at this office latest by 3.00 pm on 27.09.2025. Applications received after due date and time will not be entertained. The SBI reserves their rights to accept any or to reject all the applications without assigning reasons therefor and no correspondence shall be entertained in this regard.

ASSTT. GENERAL MANAGER (Premises & Estate)

DETAILS

#### FORM B **PUBLIC ANNOUNCEMENT**

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF **HOSHIAR NIRVAIR TRACTORS PRIVATE LIMITED** 

1.	Name of Corporate Debtor Hoshiar Nirvair Tractors Private	
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	12 June 2014
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated/ registered	Registrar of Companies- Himachal Pradesh
4.	Corporate Identity No. of corporate debtor	U74999HP2014PTC000707
5.	Address of the Registered Office and Principal Office (if Any) of Corporate Debtor	Khasra No. 411, 412, Village Bela Bathri Tehsil Haroli, District Una Himachal Pradesh 174301
6.	Date of Closure of Insolvency Resolution Process	29th Aug. 2025
7.	Liquidation Commencement Date of Corporate Debtor	29th Aug. 2025
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	Pooja Gupta IBBI Regn. No IBBI/IPA-001/IP-P-02937/2025-2026/14513
9.	Address and e-mail of the of the liquidator, as registered with the board	Address: House No. 1419, First Floor, Sector 44-B, Chandigarh 160047 Email ID- ippoojagupta.chd@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	Address: D-253, 7th Floor, Phase - 8A, Sector- 75, Industrial Area, Mohali - 160055, Punjab Email ID:- iphntp@gmail.com
11.	Last Date for Submission of Claims	28th Sept. 2025
	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	<ol> <li>Date of Incorporation of Corporate Debtor</li> <li>Authority under which corporate debtor is incorporated/ registered</li> <li>Corporate Identity No. of corporate debtor</li> <li>Address of the Registered Office and Principal Office (if Any) of Corporate Debtor</li> <li>Date of Closure of Insolvency Resolution Process</li> <li>Liquidation Commencement Date of Corporate Debtor</li> <li>Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator</li> <li>Address and e-mail of the of the liquidator, as registered with the board</li> <li>Address and e-mail to be used for</li> </ol>

**Limited** on 29.08.2025

The stakeholders of **Hoshiar Nirvair Tractors Private Limited** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 28th Sept. 2025, to the liquidator at the address mentioned against item No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Pooja Gupta Liquidator in the matter of **Hoshiar Nirvair Tractors Private Limited** Date: 31.08.2025 IBBI Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P-02937/2025-2026/14513 Place: Chandigarh AFA valid upto 30.06.2026

IIL

## **INDIAN SUCROSE LIMITED**

CIN: L15424PB1990PLC010903 Registered Office: G. T. Road, Mukerian Distt Hoshiarpur, Punjab, India, 144211 **Website**: www.muksug.in , **E-mail** : isl.investor@yaducorporation.com Phone: +91-9115110651/52

INFORMATION REGARDING 34th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

The 34th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Indian Sucrose Limited

("the Company") will be held on Tuesday, 30th September, 2025 at 10:30 A.M. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without the physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as set out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("The Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021 and Circular No. 2/2022 dated 5th May, 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, September 25, 2023 and Circular No. 09/2024 dated September 19 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023, 7 October, 2023 and Circular dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency to provide the facility of attending AGM through VC / OAVM, Remote e-voting before AGM and e-voting during AGM In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 34th AGM and Annual Report for

the Financial Year 2024-25 will be sent only through electronic mode to those members. whose e-mail address is registered/available with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will be available on the website of the Company at www.muksug.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address with the Company will be provided in the Notice of AGM.

Members who have not registered their e-mail address with the Company Depository Participant(s) are requested to register their e-mail address as per Instructions given below for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25:

Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MCS Share

Physical Holding

Transfer Agent Ltd through an e-mail at admin@mcsregistrars.com or isl.investor@yaducorporation.com providing Folio No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2024-25. please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit

Please send scanned copy of duly signed request letter to

Demat Holding

beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Adhaar Card) to (isl.investor@yaducorporation.com) or admin@mcsregistrars.com

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility. Alternatively, shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

For Indian Sucrose Limited

Place: New Delhi

Date: August 30, 2025

Anamika Raju **Company Secretary** 

## ATAM VALVES LIMITED

Regd Off:1051, INDUSTRIAL AREA, JALANDHAR, PUNJAB

Ph. No: +91 181 5001111,CIN:L27109PB1985PLC006476, Email ID:cs@atamfebi.com, Website: www.atamvalves.in **NOTICE OF 40th ANNUAL GENERAL MEETING** 

# Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the

Company will be held on Thursday, 25th September, 2025 at 01:00 p.m. (IST) through electronic mode i.e. Video Conference or Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM") to transact the business as set out in the notice convening the AGM. The AGM is held through electronic mode in accordance with the Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars").

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular, the relevant provisions of Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Notice of 40th AGM along with the Annual Report for FY 2024-2025 will be sent through electronic mode only, to those Members whose E-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with Depository Participant ("DP")/ Depository. For limited purpose of receiving the Notice and the Report through electronic mode in case of email address is not registered with the DPs/Company/RTA, Members may register email id's by sending email to the company at cs@atamfebi.com.

A letter providing the weblink for accessing the Annual Report for the financial year 2024-2025 will be sent to those shareholders who have not registered their email address with the company/ Depositories.

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case Shares held in dematerialized form. RECORD DATE FOR DIVIDEND AND PAYMENT THEREOF:

(a) Shareholders may note that the Board of Directors at its meeting held on May 26,2025, has recommended a final dividend of rs.0.85/- per equity share for the financial year ended March 31,2025. The record date for the purpose of final dividend is September 18, 2025. The final dividend, once approved by the shareholders in the ensuing AGM, will be paid on or before October 25, 2025, through various modes. To avoid delay in receiving dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories to receive dividend directly into their bank account on the payout date.

(b) Shareholders are requested to update any changes in address or bank details with their Depository Participant(s) (DPs).

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2024-2025 will also be available

on Company's website www.atamvalves.in ,on website of BSE Limited at www.bseindia.com and on website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The Notice will also be available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Members can attend and participate in the AGM only through VC/OVAM. The procedure and instructions for joining the AGM through VC/OVAM are stated in the Notice.

The Detailed procedure and instructions for casting votes through remote e-voting during the AGM for all Members (including the Members whose-mail addresses are not registered with the DPs/Company/RTA) are stated in the Notice.

For Atam Valves Limited Sd/-Natisha Choudhary **Company Secretary** 

charges, stamp duty, taxes, statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues etc. shall have to be borne by the purchaser STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

TERMS AND CONDITIONS: 1. The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to

the following further conditions: 2. The properties are being sold on 'AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS", 3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised

Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 4. The Sale will be done through eauction platform provided at the Website https://baanknet.com/ on 16.09.2025 11AM & 04:00 PM, 5. For detailed term and conditions of the sale, please

refer https://baanknet.com/ & www.pnbindia.in. 6. The publication is also a statutory notice of 15 days to the borrowers/ guarantors/ mortgagors, 7. The properties may be inspected after prior appointment from authorized officer. 8. All statutory due/ attendant charges/ other dues including registration

Dated: 30.08.2025 Place: Uchana (Jind)

Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Description of the Immovable Properties Mortgaged/ Owner's

Name (mortgagers of property(ies))

West-Property of Mr. Ajmer (56")

Singh, (Co- Borrower) 3, Ram of Rajendra Hospital, Uchana in C) 28.06.2022

Mehar S/o Zile Singh the name of Smt. Saroj w/o Shri D) Symbolic possession

Residential House No. 166/1 A) 01.07.2021

1. Sh. Chatter Singh (Through no. 3046 dated 21.01.2014 Thousand Two Hundred Thirty-Three (16.09.2025 11:00 AM)

2. Smt. Saroj w/o Shri Chatter Kalan, Rajendra Colony, in front Charges thereon at contracted rate w.e.f. 30.12.2021 until payment in full

his legal Heirs) (Borrower (s) situated at waka Rakba Uchana rupees only) + plus future interest and C) Rs.10,000/-

Authorized Officer, Punjab National Bank

(in Rupees)
B) EMD (last date of deposit of EMD)
C) Bid Increase

A) Rs.21,33,000/

epaper.financialexpress.com

Place: Jalandhar

Date: 31/08/2025

Chandigarh



टाटा कैपिटल लिमिटेड शाखा कार्यालयः कार्यालय ९०२-९०६, क्वांटम टावर, चिंचौली,

गोविंदजी श्रॉफ मार्ग, मलाड परिचम, मुंबई - 400064

मॉग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 (2) के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3

इस समाचार पत्र (फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता) में दिनांक 30.08.2025 को सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत ''माँग सूचना'' के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में राज़् (ऋण संख्या 6101184 और 7010874) के मामले में, जिसमें एनपीए तिथि अनजाने में 09.03.2024 अंकित कर दी गई थी, जबिक वास्तविक एनपीए तिथि 09.03.2025 है। आम जनता से अनुरोध है कि वे पिछली एनपीए तिथि को अनदेखा करें और नई तिथि को स्वीकार करें। अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे। स्थानः दिल्ली, तिथिः 31.08.2025 टाटा कैपिटल लिमिटेड, हस्तान्तरणा/-



बामर लारी एण्ड क. लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय - 21, एनएस रोड, कोलकाता - 700001. | सीआईएन: L15492WB1924GO1004835 द्वरभाष संख्याः 033 2222 5612 ई-मेलः bhavsar.k@balmerlawrie.com वेबसाइट: www.balmerlawrie.com

शेयरधारकों के लिए सूचना क. 108वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 108वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम' मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:00 बजे घनश्याम दास बिडला सभागार, 29, आशतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता-700019 में आयोजित की जाएगी। 108वीं एजीएम की सचना (ई-वोटिंग निर्देश, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और एजीएम स्थल के रूट मैप

सहित) और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 15 अगरत 2025 (दिन के अंत तक) तक कंपनी के शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को भेज दी गई है। यह इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकत थे और अनुमत मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा गय है जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सुचीबद्धता विनियम') के विनियम 36(1)(थी) के अनुसार, वेबलिक प्रदान करने वाला एक पत्र, जिसमें सटीक पाथ भी शामिल है, जहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, उन शेयरधारकों को भेजा गया था, जिनको ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ

नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.balmerlawrie.com investors/general-meetings-postal-ballot-and-annual-report पर, स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट पर, जहां कंपनी के इविवटी शेयर सूचीबढ़ हैं यानी www.bseindia.com तथ www.nseindia.com और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिन) (ई-वोटिंग सुविधा प्रदाता एजेंसी) की वेबसाइट https://www.evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-घोटिंग') हारा 108वीं एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे उल्लिखित तिथियों पर केफिन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

रिमोट ई-बोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगीः

रिमोट ई-बोटिंग की शुरूआत: शुक्रवार, 19 सितंबर 2025 प्रात: 9:00 बजे रिमोट ई-बोटिंग की समाप्तिः सोमवार, 22 सितंबर 2025 सार्थ 5:00 बजे

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-बोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर केफिन द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना चोट डाल सकते हैं।

केवल वहीं सदस्य जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है. रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे एजीएम की उपरोक्त सूचना में निहित निर्देशों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान प्रदान की गई ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वीट डाल सकते हैं।

कंपनी के ये सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम की सुचना में वर्णित तरीकों से मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') को सहायक दस्तावेजों के साध अपेक्षित आईएसआर फॉर्म जमा करें। सदस्य मेससं केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर-बी, प्लॉट नंबर- 31 और 32, फाइनेशियल हिस्टिक्ट, नानकरामगृहा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद रंगारेइडी, तेलंगाना, भारत-500032, ईमेल - einward.ris@kfintech.com, फोन नंबर-1800 309 4001 पर संपर्क कर सकते हैं।

डीमैंट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य पंजीकरण, इंमेल और अन्य विवरणों के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटर प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं।

कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी 108वीं वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, जिसने नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर अर्जित किए हों और कंपनी का सदस्य बना हो और जिसके पास कट-ऑफ तिथि, यांनी मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) तक शेयर हैं, वर evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है हालाँकि, यदि शेयरधारक पहले से ही एनएसडीएल या सीडीएसएल में पंजीकृत हैं, तो कृपया नीटिस में दिए गए रिमोट ई-बोटिंग/ई-बोटिंग के निर्देशों का पालन करें।

संपर्क विवरणः यदि आपके पास केफिन ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री जो रामदास, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर- 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500032 को संबोधित की जा सकती हैं, या einward,ris@kfintech.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर एन. के, एंड एसोसिएटस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्नेटरीज, (सदस्यता संख्या एफसीएस 5935 और प्रैक्टिस

सर्टिफिकेट संख्या 3725) को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हो। वार्षिक आम बैठक में लाभांश की घोषणा के बाद, इसका भुगतान ऐसी घोषणा की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर उन शेयरधारकों को किया जाएगा जो रिकॉर्ड तिथि अर्थात मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दिन के अंत तक) की कंपनी के शेयर धारण कर रहे हींगे।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 23 जून, 2025 के मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 के अनुसार, जिन शेयरधारकों के पास भौतिक शेयर हैं और जिन्होंने अभी तक कंपनी के साथ अपने पैन और केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि 1 अप्रैल, 2024 से, ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश का भूगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन और केवाईसी प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। अतः, उनसे अनुरोध है कि वे उक्त मास्टर परिपन्न में निर्धारित आवश्यक प्रपन्नों और दस्तावेजों को विधिवत भरकर कंपनी/आरटीए को आवेदन करें। संबंधित फॉर्म कंपनी की वेबसाइट https://www.balmeriawrie.com/investors/shareholder-s-iepf-claimant-s-information पर और मेससं, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आरटीए की https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx पर भी उपलब्ध हैं।

ख. केवाइंसी, बैंक अधिदेश और अन्य संबंधित अद्यतनीकरण तथा शेयरधारको तक पहुंच के लिए 28 जुलाई 2025 से 6 नवंबर 2025 तक 100 दिवसीय अभिवान, 'सक्षम विनिधानकर्ता' ताकि अप्रदत्त अदावाकृत लाभांश शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित होने से रोका जा सके। यह संदर्भ संख्या - कंप्यूटर संख्या 284174 और ई-फाइल संख्या 30/06/2025-IEPFA

दिनांक 16 जुलाई, 2025 के परिपत्र का संदर्भ है, जो विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार हारा 100 दिवसीय अभियान - 'सक्षम विनिधानकर्ता' के संबंध

उपरोक्त परिपत्र के अनुसरण में, कंपनी भी अपनी विनम्र भूमिका निभा रही है। इस प्रकार, कंपनी के उन शेयरधारकों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिनके लाभांश का दावा नहीं किया गया है। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि यह अभियान विशेष रूप से शेयरधारकों तक पहुँचने और उनके केवाईसी,

बैंक अधिदेश, संपर्क जानकारी आदि को अद्यतन करने के लिए शुरू किया गया है।

अभियान चक्र की समयावधि - 28 जुलाई 2025 से 6 नवंबर 2025 तक। इस संबंध में, सभी शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे:

अपने फोलियो/डीमैट खाते में अपने केवाईसी, बैक अधिदेश, संपर्क जानकारी और अन्य विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 से लाभांश का दावा करें ताकि अदावाकृत लाभांश और इक्विटी शेयरों को विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में स्थानांतरित होने से रोका जा सके। कंपनी के सभी शेयरधारकों, जो मीतिक रूप से शेयर धारण कर रहे हैं, से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए वेबलिक से फॉर्म डाउनलोड करें और उपरोक्त पते पर आरटीए से संपर्क करें:

https://www.balmerlawrie.com/investors/shareholder-s-iepf-claimant-s-

इसके अलावा, कंपनी के शेयरधारकों, जो डीमैंट मोड में शेयर धारण कर रहे हैं, से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसपेंट (डीपी) से संपर्क करें। 16 जुलाई, 2025 के प्रासंगिक परिपत्र के साथ अपेक्षित सुचना कंपनो की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक

https://www.balmerlawrie.com/storage/files/websiteblsakshamniveshak.pdf ग. भौतिक शेवरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो (७ जुलाई 2025 से 6 जनवरी 2026 तक) के लिए सूचना

यह भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 2 जुलाई 2025 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD- PoD/P/CIR/2025/97 का संदर्भ है, जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए एक विशेष विंडों खोलने के संबंध में है।

अपेक्षित सूचना कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है: https://www.balmerlawrie.com/storage/files/websiteblspecialwindow.pdf

उपर्युक्त परिपत्र के अनुसरण में, निवेशकों को केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने का अवसर देने के लिए एक विशेष विंडो उपलब्ध कराई गई है, जो 1 अप्रैल 2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। यह विंढी 7 जुलाई 2025 से उपलब्ध कराई गई है और 6 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त तिथि के बाद कोई पुनः दाखिल करने का अनुरोध खीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित दस्तावेजों के साथ भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को अनुमत समय अवधि के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास

पुनः दाखिल किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुन: जमा की जाने वाली प्रतिभृतियाँ केवल डीमैंट मोड में जारी की जाएँगी, बशर्ते कि ऐसे हस्तांतरण-सह-डीमैंट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

उपरोक्त क्रमांक खा और ग के संबंध में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने अनुरोध दर्ज कराने के लिए नीचे दिए गए पते पर आरटीए से संपर्क करें: केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनिवम बिल्डिंग टावर-बी, प्लॉट संख्या- ३१ और ३२, फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500032, या einward.ris@kfintech.com पर ईमेल भेजें या 1800 309

4001 (टोल फ्री) पर कॉल करें। हम सभी शेवरधारकों को उपरोक्त अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के लिए कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांकः ३० अगस्त, २०२५

UGRO

यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टावर ३, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क,एलबीएस रोड कुर्ला, मुंबई ४०००७० कब्जा-सूचना, परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के तहत यु जीआरओ कैपिटल लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय—चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070, में है के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि राशि और उस पर ब्याज कहा का भूगतान करने को कहा गया। कर्जदारों द्वारा राशि का भृगतान करने में विफल रहने पर, कर्जदारों और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी

ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के उक्त नियम 8 के साथ पठित,उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित दिन, महीने और वर्ष को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड को नोटिस में उल्लिखित राशि राशि और उस पर ब्याज का भूगतान करना होगा। प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है।

क सं	उधारकर्ता का विवरण	मांग सूचना	बंधक संपत्ति	कब्ज़ा तिथि			
1	1. वैष्णो दुपट्टा 2. राजेश कुमार 3. सुमन ऋण खाता संख्या: HCFDELSEC00001043236	15 मई 2025 तक रु. 2,194,955/— (केवल इक्कीस लाख चौरानबे हजार नौ सौ पचपन रुपये,)	संपत्ति संख्या एक्स / 3279, प्लॉट संख्या 11, क्षेत्रमाप 75 वर्ग गज , खसरा नंबर से बाहर. 215, आबादी गली नंबर 4, रघुबर में पुरा नं.2, गांधी नगर, सीलमपुर ग्राम क्षेत्र में लगे, इलाका शाहदरा, दिल्ली31.				
स्थानः दिल्ली इस्ता./- प्राधिकृत अधिकारं							
0	2 0 3	30 003					

नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड (CIN: L74899DL1995PLC066194)

पंजीकृत कार्यालय: 218 – 222, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, प्लॉट संख्या 2, सामुदायिक केंद्र, रोड संख्या 44 के किनारे, पीतमपुरा, नई दिल्ली - 110034, 1 **ईमेल आईडी**; cs@neeraipaper.com. वेबसाइट: www.neerajpaper.com; | दूरभाष: +91 11 47527700, | फैक्स - +91 11 47527777

वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोज़र और ई-वोटिंग की जानकारी

एतंद्र द्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरचारकों की 30° वार्षिक आम बैठक **सोमवार. 29 सितंबर 2025 को पूर्वाह 11.30 बजे** डिडेपी कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("वीसी/ओएबीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट कार्प मंत्रालय द्वीरो जारी सामान परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपन्न संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और परिपन्न संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई. और सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंब्र, 2022, और परिपत्र संख्य 19/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 के अनुपालन में और परिपत्र संख्या SEBUHO. CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, औ परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023, और परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टबर, 2023 और परिपन्न संख्या SEBI/HD/CFD/CFD-P6D-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टबर, 2024 कंपनियों को सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बेठक (एजीएम) आयोजि करने की अनुमति है। इसलिए, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है ताकि नोटिस ा उल्लिखित कार्य निष्पादित किए जा सकें। नोटिस पहले ही शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से ईमेल के माध्यम से भेजा जा चुका है. यदि उनक ईमेल पता डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत है। इसके अलावा, सेबी (सूबीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का पूरा विवरण उपलब्ध कराने वाला एक वेब-लिंक उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है। एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना कंपनी की वेबसोइट https://www.neerajpaper.com/notices. स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। ईमेल के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना भेजने का काम 30 अगस्त 2025 को

पूरा हो थुका हैं। कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और कंपनी सेंट्रल डियॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपना कारोबार चला सकती है। ई-वोटिंग सुविध www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध होगी। ई-वोटिंग की अवधि 26 सितंबर 2025 को सुबह 10:00 बंजे शुरू होगी और 28 सितंबर 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमृति नहीं होगी। ई-वोटिंग के लिए अंतिम तिथि सोमवार, 22 सितंबर 2025 होगी। इसेक्ट्रॉनिक वोटिंग संबंधी निर्देशों के लिए, शेयरधारक कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दिए गए निर्देशों को देख सकते हैं। जो व्यक्ति नोटिस भेजूने के बाद शेयर प्राप्त करते हैं और कंपनी के सदस्य बनते हैं और जो कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 22 सितंबर 2025 तक पात्र शेयरधारक हैं, वे लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए श्री पुनीत मित्तल से (011-29961281) या beetairta@gmail.com

पर संपर्क कर सकते हैं। 28 सितंबर, 2025 को शाम 5 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कोई सदस्प रिमोट ई-वोटिंग के माध्य े अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकता हैं, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। एजीएम के दौरान भी मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से उपस्थित वे लोग, जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम में ई-बोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। केवल वहीं व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। एंजीएम में और भौतिक या डीमैट रूप में शेपर रखने वाले सदस्यों और कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं करने वाले सदस्यों के लिए

रमोट ई-वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गुपा है। -बोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप बीटल फाइनेशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक श्र पुनीत मित्तल से beetairta@gmail.com टेलीफोन नंबर 011 29961281 पर संपर्क कर सकते हैं या श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री मेंडबुब लक्षानी (022-23058543) पा श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं या www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सेर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल् देख सकते हैं।

न्पना अधानयम, 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोठ सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक के लिए मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड दिनांक: 31.08.2025 (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) स्थानः दिल्ली

FINSERV

ऋण खाता संख्या/कर्जदार(रों)/

सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम एवं पता

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिभिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र - ४११०१४, ग्राखा कार्यालय : १४वां तल, अग्रवाल मेट्री हाइटस नेताजी सुभाष पैलेस पीतमपुरा नई दिल्ली-110034

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की

कर्जदार(रों) / सह—कर्जदार(रों) को इस प्रकाशन के माध्यम से सचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा समय समय पर प्राप्त की गई ऋण सविधाओं के तहत बकाया रिशयों का मुगतान करें।

धारा 13 (2) के तहत मांग सुचना अधोहस्ताक्षरी मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतदृद्वारा निम्नलिखित सूचना कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) को जारी कर रहा है, जो अपनी देयता का निर्वहन करने में असफल रहे हैं अर्थात बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड द्वारा उनको दिए गए आवास ऋण(णों) / सम्पत्ति के ऐवज में ऋण(णों) के मूलधन और उसपर उद्भूत ब्याज एवं अन्य प्रभारों के प्रतिभुगतान में असफल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप ऋण अनार्जक आस्ति हो गए हैं। तदनुसार उनको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की 13 (2) और उनके नियमों के तहत सूचनाएं, उनके अंतिम ज्ञात पते पर, जारी की गई थीं। तथापि वे बिना सुपुर्दगी/बिना तामील वापस प्राप्त हो चुकी हैं, अतः

प्रतिभूत/बंधक अचल आस्ति/प्रवर्तित

की जाने वाली सम्पत्ति का पता

निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : ग्राम 18-07-2025 ₹. 45,14,718 / -तिहाड, कॉलोनी, जिसे हरि नगर ब्लॉक-बी, नई दिल्ली-110064 के नाम (लैन संख्या H401HHL0583566 से जाना जाता है, के क्षेत्र में खसरा संख्या 2032 के अंतर्गत, बिना छत (रुपये पैंतालीस लाख . गौतम राज प्राशर (कर्जदार) के अधिकार, ऊपरी भूतल पर निर्मित संपत्ति डब्ल्यूजैड-262ए (बी-230), चौदह हजार सात सौ 2. गुरप्रीत प्राशर (सह–कर्जदार) क्षेत्रफल 110 वर्ग गज, पूर्वः- संपत्ति संख्या बी-229, पश्चिम:- संपत्ति अठारह मात्र) सभी का पता : 230 यूजीएफ ब्लॉक—बी दीन दयाल उपाध्याय संख्या बी-231, उत्तर:- संपत्ति संख्या बी-230, दक्षिण:- रोड अस्पताल के पीछे, हरि नगर दक्षिण पश्चिम दिल्ली —110064 निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : ग्राम-24-07-2025 (लैन संख्या H401HLD1422591 और H401HLT1424930 रजापुरखुर्द, मोहन गार्डन, ब्लॉक – पी, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059, ₹. 23,81,912 / - शैलेश कुमार तिवारी (कर्जदार) 110059 में खसरा संख्या 21/23/2 के भाग पर निर्मित द्वितीय तल, फ्रांट (रुपये तेईस लाख मिडिल (प्राइवेट नंबर एसएफ 02), बिना छत के अधिकार के, संपत्ति संख्या 2. लक्ष्मी तिवारी (सह–कर्जछार) इक्यासी हजार नौ सौ 350 और 351, क्षेत्रफल 57 वर्ग गज, पूर्वः संपत्ति का भाग, पश्चिमः अन्य पता : प्रोप नंबर 350 और 351, मोहन गार्डन ब्लॉक — पी, उत्तम नगर डीके मोहन गार्डन, दिल्ली— 110059 प्लॉट, उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः सड़क 15 फीट

यह कदम सूचना की वैकल्पिक तामील हेत् उठाया जा रहा है। उपरोक्त कर्जदारों तथा/अथवा सह-कर्जदारों/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे बकाया राशि का भूगतान भावी ब्याज के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर कर दें, जिसमें असफल रहने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति आस्ति / बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु आगे कार्यवाही (बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पास उपलब्ध अन्य अधिकार उपायों को प्रतिकूल प्रभावित किए बगैर) की जाएगी।

उपरोक्त नामक पार्टियों को उपरिवर्णित सम्पत्तियों को हस्तांतरित नहीं करने, तृतीय पक्ष हित सुजित नहीं करने की सलाह भी दी जाती है, जिन पर कि बजाज हाउसिंग फाइनैंस

तिथि : 31-08-2025 स्थान : दिल्ली/एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

प्ररूप संख्या आइएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कंपनी के पंजीवत कार्यालय की एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थातरित के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विद्वापन

केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) निवम, 2014 के निवम 30 के तप-निवम (5) के खंड (ए) के मामले में

कोकोरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकत कार्यालय हाउस नंबर 132. द्वितीय तल, राजा गार्डन, हांडा नर्सिंग होम के पीछे, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110015, में है, के मामले में।

बान जनता को रहित किया जाता है कि यह कंपनी अपन मंजीकृत कार्यालय " राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य" से "तमिलनाड् राज्य" में स्थातरित करने के लि कंपनी को सक्ष्म बनाने के लिए 24 जून, 2025 को आयोजित वार्षिक अवन बैठक में पारित विशेष प्रस्ताय के अनुसार कंपनी मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के जापन के खंड। में परिवर्तन के पष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निवेशक) को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकत कार्यालय र प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो व एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकावत फॉर्म मरकर जमा कर सकता है या अपने हिताँ की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलकनामें के साथ अपेनी आपत्तियों को पंजीकृत हाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते बी-2 विंग, द्वितीय तस, पं. दीनदयास अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 व इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से (14) चौदह दिनों मीतर मेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंचनी क उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे लिखित पते पर प्रस्तृत करें-राज्य नंबर 132 दितीय तल. राजा गार्डन हांउ नर्सिंग होम के पीछे, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110015 आवेदक के लिए और उनकी ओर र कोकोरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

केंद्रदल्लु कोडंडारमन कानन

LIBERTY

विनांक: 30.08.2025 (ৱীআইएন: 11147832)

# लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

सीआईएन : L19201HR1986PLC033185

पंज़ीकृत कार्यालय: लिबर्टीपुरम, 13वॉ माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला - करनाल - 132114, हरियाणा कॉर्पेरिट ऑफिस: 19वा तल मैगनम ग्लोवल पार्क, टावॅर-2, गोल्फ कोर्स एक्सटेशंन रोड़, सेक्टर-58, गुरुग्राम- 122011, हरियाणा दुरभाष : +(91)-0124-4616200 फैक्स: +(91)-0124-4616222

ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com

# लिबर्टी शूज़ लिमिटेड के सदस्यों को सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय (एम सी ए) ने 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 8 दिसम्बर 2021, 14 दिसम्बर 2021, 5 मई 2022, 28 दिसम्बर 2022, 25 सितम्बर 2023 और 19 सितम्बर 2024 को परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 और 09/2024 (एम सी ए परिपत्र) और कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परिपन्नो के तहत, कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (39वीं ए जी एम) बुधवार 24 सितम्बर 2025 को प्रातः 11:00 बजे, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओए वी एम के माध्यम से करने का फैसला लिया है।

उपरोक्त प्रावधानों तथा परिपत्रों का पालन करने के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त वित वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तथा 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, 39वीं वार्षिक आम बैठक में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने के लिए तथा 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए संकल्पों पर मतदान करने के लिए कम्पनी के उन सदस्यों को जिनकी ई मेल पहले से ही कम्पनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागियो (डी.पी.) के साथ शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को पंजीकृत है, ई मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को शनिवार 30 अगस्त 2025 को भेज दिया गया हैं। इसके अलावा, सेबी (सूचबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (तृतीय संसोधन) विनियम, 2024 दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 द्वारा संशोधित सूचीबद्धता विनियमो के विनियम 36(1) (बी) के अनुपालन में, एक पत्र में सटीक पाथ सहित वेब लिंक दिया गया है, जहाँ वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का पूरा विवरण और 39वीं ए जी एम की सूचना शुक्रवार 29 अगस्त 2025 को उन शेयर धारको को भेजी गयी है। जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आर टी ए/डिपॉ जिटरी प्रतिभागी (यो) के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

39वीं वार्षिक आम वैठक में सदस्य केवल वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से ही शामिल हो सकते है। तथा वे ही अधिनियम की घारा 103 के अतर्गत कोरम के लिए मान्य होंगे।

39वीं वार्षिक आम वैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.libertyshoes.com) स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रासंफर एजेंट की वेबसाइट instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध हैं।

(ख) सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तक का बंद होना

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूची निर्धारण तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनिमय 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में एतदद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुरतकें गुरुवार 18 सितम्बर 2025 से बुधवार 24 सितम्बर 2025 , (दोनों दिवस शामिल), तक कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

(ग) ई-वोटिंग (ई मतदान)

मतदान कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013, काँरपोरेट मामले के मत्रांलय (एम सी ए) तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के प्रावधानों तथा परिपत्रों तथा सेक्रेटैरियल स्टैंडर्ड - 2 (SS-2) के प्रावधानों के अनुसार, सभी सदस्य जिनका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात बुधवार 17 सितम्बर 2025 को सदस्यों लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर मे शामिल होंगे, वह कम्पनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए संकल्पों पर

कंपनी 39वीं वार्षिक आम बैठक में दिए गए संकल्पों पर मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई वोंटिगं (ए जी एम से पूर्व) तथा ई वॉटिंग (ए जी एम के दौरान) तथा 39वीं ए जी एम (AGM) में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने की सुविधा एम यू एफ जी ईन टाईम इंडिया प्रावेट लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध करा रही है।

रिमोट ई वोटिंग रविवार 21 सितम्बर 2025 को प्रात 9:00 बजे शरू होगी और मंगलवार 23 सितम्बर 2025 सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि तथा समय के बाद रिमोट ई वोटिंग की सूविधा एम यू एफ जी ईन टाइम इंडिया प्रावेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दी

जाएगी। जो सदस्य रिमोट ई वोटिंग के दौरान मतदान नहीं कर पाये वे ही 39वीं ए जी एम के दौरान ई वोटिंग के माध्यम से मतदान कर पाएगें। सदस्य जिनके पास भौतिक रूप से शेयर हैं और उन्होंनें अपने ई मेल पतें कम्पनी के पास पंजीकत नहीं करा रखे हैं, वे 39वीं वार्षिक आम बैटक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, वी सी/ओ ए वी एम की सुविधा द्वारा 39वीं वार्षिक आम बैठक मे शमिल होने के लिए तथा ई वोटिंग के लिए अपना ई मेल पते कम्पनी तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रासंफर ऐजंट के पास पंजीकृत करा सकते हैं। जिसका निवेदन सदस्य अपना नाम, पता, फोलियो संख्या, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतीलिपी और आधार कार्ड, या अन्य निर्देशित प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित स्कैन प्रतीलिपी समर्थन में कम्पनी को investorcare@libertyshoes.com या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवम शेयर ट्रासंफर ऐजंट को delhi@in.mpms.mufg.com पर भेजें।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई मेल पते उपरोक्त विषय में अपनी डी.पी. के अनुसार निर्देशित प्रकिया अनुसार पंजीकृत करो सकते हैं। भविष्य में सूचना भेजने के लिए पंजीकृत ई मेल पते का उपयोग किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो कि शेयरों का अधिग्रहण करता है और 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के ईलक्ट्रोनिक प्रेक्षण के बाद

कम्पनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि यानि बुधवार 17 सितम्बर 2025 को कम्पनी के शेयरों को धारण करता है, वो उपरोक्त उद्देश्य के लिए लोग-इन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करे अथवा delhi@in.mpms.mufg.com तथा investorcare@libertyshoes.com पर एक अनुरोध भेज सकता है। ई-मतदान के सबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य श्री राजीव रंजन सहा उपाध्यक्ष, एम यू एफ जी ईनटाईम इंण्डिया प्रा. लिमिटेड,

को उनके ई मेल enotices@in.mpms.mufg.com या 022-4918 6000 पर फोन करे। उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है। और एम सी ए परिपत्र और भारतीय

प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के परिपत्रों के अनुपालन में है। के लिए और की तरफ से

लिबर्टी शूज लिमिटेड

सी एस मुनीष काकरा मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव सदस्य संख्या ACS6262

# प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड

मांग सूचना

तिथि और राशि

पंजीकृत कार्यालय : 305, एलीट हाउस, 36, सामुदायिक केंद्र, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, जमरूदपुर, नई दिल्ली 110048

दूरभाष : 011-45537559, वेबसाइट : www.premierpoly.com सीआईएन : L25209DL1992PLC049590, ईमेल : compliance.officer@premierpoly.com

रतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं (तैंतीसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वार जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 9/2024 तथा भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी 3 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/ सीआईआर/2024/133 के साथ-साथ एमसीए तथा सेबी द्वारा इस संबंध में जारी अन्य लाग परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सुचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य

ऑडियो–विजुअल माध्यम (वीसी) के माध्यम से पहली बार, आयोजित की जायेगी। परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024—2025 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसमे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना शामिल है, केवल उन्हीं सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी / उसके रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुरूप, कंपनी ने उन शेयरधारकों को भी पत्र भेजे हैं जिनके ईमेल पते उनके डीमैट खाते / फोलियो नंबर के समक्ष पंजीकृत नहीं हैं, ताकि वे सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2024–2025 की वार्षिक रिपोर्ट तक पहँच सकें।

सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.premierpoly.com/investors/financial/ annual-report.website स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई www.bseindia.com तथा एनएसई की www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। ईमेल के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने का कार्य 30 अगस्त, 2025 को पूरा हो गया है। बही समापन : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व

तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर तथा शेयर हस्तांतरण बहीखाता गुरुवार 18 सितंबर 2025 से बुधवार 24 सितंबर 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से तथा वार्षिक आम बैठक में यदि घोषित होता है, लाभांश के भूगतान के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के लिए बंद रहेगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के

नियम 20 के साथ पढ़ें, तथा एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2022 तथा

11 / 2022 के अनुसार, कंपनी एजीएम की तिथि से पहले "रिमोट ई—वोटिंग सुविधा" तथा एजीएम के दौर अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले सभी व्यवसायों के संबंध में "ई-वोटिंग सुविधा" प्रदान कर रही है रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार 21 सितंबर 2025 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी तथा मंगलवार 23 सितंबर 2025 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो बुधवार 17 सितंबर 2025 की कट-ऑफ तिथि तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, 23 जुलाई 2025 की एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, ज कंपनी के शेयर प्राप्त करता है तथा कट-ऑफ तिथि यानी 22 अगस्त, 2025 के बाद सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है, रिमोट ई-वोटिंग के लिए उसी प्रक्रिया का पालन कर सकता है जैसा कि एजीएम की सूचना के पृष्ठ संख्या 9 से 12 पर दिया गया है। इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्यों को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं होगी बुधवार 24 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य—श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम र बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्दिष्ट कार्यों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं हालाँकि, केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्नों या समस्याओं के लिए आप helpdesk.evotina@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल—फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल कर सकते हैं। कंपनी 23 मई 2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार, उन शेयरधारकों को अंतिम लाभांश का भूगतान करेगी जिनके नाम बूधवार 17 सितंबर 2025 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर दिखाई देंगे, तथा उन शेयरधारकों को भी जिनके नाम बधवार 17 सितंबर 2025 को कारोबारी समय की समाप्ति पर लाभार्थी स्वामी के रूप में दिखाई देंगे, जैसा कि डिपॉजिटरीज, अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तृत किए जाने वाले विवरणों के अनुसार होगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह वी जाती है कि वे अपने बैंक विवरण संबंधित डिपॉजिटरीज, अर्थात् एनएसडीएल तथा सीडीएसएल व

साथ अद्यतन रखें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथ ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड के साथ अपने बैंक विवरण

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकार

दिनाँक : 30-08-2025 स्थान : नई दिल्ली

INDUSTRIES®

beetalrta@gmail.com पर अद्यतन करें।

जेटीएल इंडस्ट्रीज लिभिटेड सीआईएन नं.: L27106CH1991PLC011536

पंजी. एवं निग. कार्यालय: एस. सी. ओ. 18-19, सेक्टर 28-सी, चंडीगढ़-160002 भारत दूरभाष : +91 172 4668000, ईमेल : secretarial@jtl.one, वेबसाइट : www.jtl.one

सुचना

23 सितंबर, 2025 को सुबह 11.30 बजे वीडियो—कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य दृश्य—श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, उक्त एजीएम बुलाने की सूचना में निर्दिष्ट कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी। यह कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी परिपत्रों (जिन्हें सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र कहा जाता है) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 (जिन्हें सामृहिक रूप से सेबी परिपत्र कहा जाता है) के लागू प्रावधानों के मद्देनजर किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने के निर्देश 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाने की सूचना दिनांक 27 अगस्त 2025 में दिए गए हैं। संबंधित एमसीए तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के डिपॉजिटरी/आरटीए के पास पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सूचना की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जा रही हैं तथा वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सूचना उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। इसके अलावा, जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 तक पहुँचने के लिए एक वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र भेजा जाएगा।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार,

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने अपना ईमेल पता तथा मोबाइल नंबर पंजीकत नहीं कराया है. उनसे अनरोध है कि वे इन्हें कंपनी के रजिस्टार तथा शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड के पास पंजीकृत कराएँ। डीमैट मोड में रखे गए शेयरों के मामले में, शेयरधारक कृपया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") से संपर्क करें तथा डीपी द्वारा अपनाई गई तथा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने ईमेल पते तथा

बैंक खाते का विवरण डीमैट खाते में पंजीकृत कराएँ। दिनाँक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 34वीं वार्षिक आम बैटक (एजीएम) की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.jtl.one, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई की www.bseindia.com तथा एनएसई की www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में सीडीएसएल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की अविध शनिवार 20 सितंबर 2025 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) से शुरू होकर सोमवार 22 सितंबर 2025 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जिनके पास कट-ऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि) यानी मंगलवार 16 सितंबर 2025 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर हैं, रिमोट

ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, वार्षिक आम बैठक में ई—वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट पहले ही डाल दिया है, वे वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकेंगे. लेकिन दोबारा वोट नहीं दे सकेंगे। सदस्यों के मताधिकार (एजीएम से पहले/उसके दौरान रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए) कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के

वीटिंग के माध्यम से अपना वीट डाल सकते हैं। इसके बाद वीटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमी

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा रिमोट ई—वोटिंग में भाग लेने या वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके के बारे में एजीएम बलाने की सचना में निर्देश दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के लिए की जाएगी।

यदि सदस्यों के पास सीडीएसएल ई—वोटिंग सिस्टम से रिमोट ई—वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, तो वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन प्रयूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यगण कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड से भी संपर्क कर सकते हैं। पता : बीटल हाउस, 99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली, दूरभाषः (९१) –११–२९९६१२८१–८३, फैक्सः (९१) –११–२९९६१२८४, ईमेलः beetal@beetalfinancial.com या कंपनी को secretarial@jtl.one पर ईमेल करें या

0172-4668000 पर संपर्क करें। निदेशक मंडल ने 27 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति शेयर 0.125 रुपये (अर्थात 12.5 प्रतिशत :) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी। जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है, अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि 12 सितंबर 2025 है। यदि अंतिम लाभांश को सुनिश्चित वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आगामी वार्षिक आम बैठक में इसकी घोषणा के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरीज (जहाँ शेयर डीमैटेरियलाइज्ड मोड में रखे जाते हैं) तथा आरटीए (जहाँ शेयर भौतिक मोड में रखे जाते हैं)

के साथ अपने केवाईसी को अद्यतन करें ताकि भूगतान तिथि पर सीधे उनके बैंक खाते में लाभांश प्राप्त सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, २०२० के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल २०२० से

शेयरधारकों के हाथों में लाभांश के रूप में आय करयोग्य है तथा कंपनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किये गये लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करनी आवश्यक है। घोषित लाभांश पर कर कटौती के संबंध में आवश्यक जानकारी सदस्यों के संदर्भ हेतु सचना में दी

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

अमरेंद्र कुमार यादव

कंपनी सचिव

स्थान : चंडीगढ

दिनाँक: 30-08-2025

सदस्यता सं: ए४1946

तिथिः शनिवार 30 अगस्त 2025

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा

epaper jansatta.com